

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व विधायक, कैथल ने निम्नलिखित बयान जारी किया:-

मोटर वाहन टैक्स दर बढ़ोतरी वापस हो: सुरजेवाला

प्रेस-विज्ञप्ति

चंडीगढ़, 29 सितंबर, 2017

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार द्वारा मोटर वाहन कर दरों में की गई भारी बढ़ोतरी को जन-विरोधी बताते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।

आज यहां जारी एक प्रैस बयान में श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार प्रदेश की जनता पर हर-रोज़ कोई नया बोझ लाद रही है जिससे पहले ही मंहगाई की मार झेल रही आम जनता का जीवन दुभर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन कर दरों में बढ़ोतरी का असर आम बसों, एसी बसों, स्कूल बसों, तिपहिया मोटर वाहनों और अन्य सभी मोटर वाहनों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों के मोटर वाहनों को पहले टैक्स शुल्क से मुक्त रखा गया था लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के गैर-वातानुकूलित व वातानुकूलित वाहनों पर भी 3600 से लेकर 18000 रूपए प्रतिवर्ष टैक्स लगा दिया है जिसका सीधा बोझ स्कूल व कॉलेज में जाने वाले छात्रों के परिवारों पर पड़ेगा।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार ने पहले भी मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी की थी जिससे नया वाहन लेना बहुत मंहगा हो गया है। इसके अलावा केन्द्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार ने पेट्रोल व डीज़ल पर लिया जाने वाला एक्साइज और वैट दरों में भारी बढ़ोतरी की थी जिससे जनता के लिए पेट्रोल व डीज़ल मंहगा हो गया है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.25 और डीज़ल पर वैट को 9.24 से बढ़ाकर 17.22 कर दिया था। इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 133 प्रतिशत और डीज़ल में 400 प्रतिशत बढ़ोतरी की है जिससे कच्चे तेल की अन्तराष्ट्रीय कीमतों में यूपीए सरकार की तुलना में आधे हो जाने के बावजूद जनता को पेट्रोल व डीज़ल यूपीए से मंहगे भाव में खरीदना पड़ रहा है।